



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1972/श्रावण 25, 1894

No. 207] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1972/SRAVANA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 16th August 1972

G.S.R. 374(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule shall be purchased or sold during the month of August, 1972.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to the Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second schedule.

Provided further that the price specified in this Order is liable to be revised and finally fixed at such rate as the Tariff Commission recommend and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for jute made in the month.

Explanation.—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S. No. (1)	Category of jute bags (2)	Maximum ex-factory price (3)
1.	Standard B. Twill bags of the size 44"×26½" weight 2½ lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sown and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566-1965 as amended upto date.)	Rs. 228.66 per 100 bags
2.	DW Flower Bags 44"×28" HD weight in proportion 56"×28" HD, 2½ lbs. per bag 7×9 or 8×8 plain dry sewn.	Rs. 205.55 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags	
	warp way	waft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking strength	160 kg. Rs.	155 kg. Rs.
160	..	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	

[No. 18012/1/72-Tex(D).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1972

जी० एस० आर० 374 (अ)—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खण्ड (एच) के साथ पठित, उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की मण्लाई तत्सम्बन्धी सेवाओं की जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसका उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्वारा, इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूचि के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है जिस पर उक्त अनुसूचि के कालम 2 की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म अगस्त 1972 के मास में खरीदी या बची जायेंगी।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूचि के क्रम संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूचि के कालम (1) की तदनुसूची प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूचि के कालम (2) या कालम (3) में बताई गई सीमा तक घटाया जाएगा।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमत संशोधित की जा सकती है और अन्त में ऐसी दर पर निर्धारित की जाएगी जिसकी टैरिफ आयोग सिफारिश करे तथा इस प्रकार अन्तिम रूप से निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर संभरक को अगस्त 1972 में मृपुर्दगियों के लिए भुगतान करने हक है।

स्पष्टीकरण :—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूचि में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीदार को ही, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रों की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान मर्यादित की गई हो।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	पटसन के बोरो का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	स्टैंडर्ड बी ट्विल. बोरे-साइज 44" - 26 $\frac{1}{2}$ " वजन 228.66 रुपये प्रति 2 $\frac{1}{2}$ पौंड प्रति बोरा 6×8, 3 बल्यू, खुश्क सिला हुआ और शेष सभी प्रकार से वर्तमान आई०एस०आई० की विशिष्टियों के अनुरूप हों (संख्या आई० एस० 2566-1965 अद्यतन यथा संशोधित)	100 बोरे
2.	डी-डब्ल्यू ग्राटे के बोरे-44"×28" एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन, 56"×28" एच० डी० 2 $\frac{1}{2}$ पौंड प्रति बोरा, 7×9 या 8×8 सादा, खुश्क सिला हुआ।	205.55 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	प्रति 100 बोरो के मूल्य में कमी	
(1)	(ताने में) (2)	बाने में (3)
आई० एस० एस० स्टैंडर्ड (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	160 किलोग्राम	165 किलोग्राम
	रुपये	रुपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

[सं० 18012/1/72-टैक्स (डी)]

बी० डी० कुमार,
संयुक्त सचिव।